



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 2009/कार्तिक 30, 1931

No. 355]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 2009/KARTIKA 30, 1931

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

सं. 303/53/2009-एफ(एफ).—सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 303/64/2001-एफ(एफ) दिनांक 4-6-2002 में प्रकाशित भारतीय पैनोरमा के समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित निर्णायक मंडलों द्वारा सिफारिशों के आधार पर भारतीय पैनोरमा 2009 में निम्नलिखित 26 कथा चित्र एवं 18 गैर कथा चित्रों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है :—

फीचर फिल्में

क्र. सं. फिल्म का नाम	भाषा	निर्माता का नाम एवं पता	निर्देशक का नाम
1. आइनाते	बांग्ला	नरेन्द्र एस. सुराणा, द्वारा जैका इंडस्ट्रीज एंड सेल्स कं. प्रा. लि., 14/5, हजरा रोड, कोलकाता-700026	दुलाल डे
2. ओंशुमानेर छोबी	बांग्ला	टी. सरकार प्रोडक्शंस, कमरा नं. 410, 79, लेनिन सरानी, कोलकाता 700013	अतनू घोष
3. अंतहीन	बांग्ला	स्क्रीनप्ले फिल्म्स प्रा. लि., 162/ए/93 लेक गार्डन्स, कोलकाता-700045	अनिरुद्ध रॉय चौधरी
4. द्वैन्दो	बांग्ला	सुमन घोष प्रोडक्शंस, द्वारा पी. मुखर्जी एंड कं., कमरा नं. 5, पहली मंजिल, 8/2, किरन शंकर रॉय रोड, कोलकाता-700001	सुमन घोष
5. शौब चोरित्रो काल्पोनिक	बांग्ला	महेश रामनाथन, रिलायंस बिग पिक्चर्स, छठी मंजिल, 49/50, मारुति चैम्बर्स, वीरा देसाई एक्सटेंशन रोड, ऑफ लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई-400053	रितुपर्णो घोष
6. जानाला	बांग्ला	महेश रामनाथन, रिलायंस बिग पिक्चर्स, छठी मंजिल, 49/50, मारुति चैम्बर्स, वीरा देसाई एक्सटेंशन रोड, ऑफ लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई-400053	बुद्धदेव दासगुप्ता

7	लैंड गोल्ड वूमैन	अंग्रेजी एवं उर्दू	सदर्न एंटरटेनमेंट, 905 ए आर एन ए हाईटस, जे वी लिंक रोड, अंधेरी (पू.) मुंबई 400093	अवंतिका हरी
8	फॉर रीयल	अंग्रेजी	सोना जैन, 6 बी/6, सिरीफोर्ट इनसेट एरिया, अगस्त कांति मार्ग, नई दिल्ली 110049	सोना जैन
9	देव डी	हिन्दी	रॉनी स्कूवाला, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, 1181-82, सॉलीटेयर, कॉर्पोरेट पार्क, चकाला, अंधेरी (पू.) मुंबई 400093	अनुराग कश्यप
10	फिराक	हिन्दी	परसेट पिक्चर्स क., पी22, रघुवंशी एस्टेट, 11/12, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पैरल, मुंबई 400013	नंदिता दास
11	कमीने	हिन्दी	रॉनी स्कूवाला, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, 1181-82, सॉलीटेयर, कॉर्पोरेट पार्क, चकाला, अंधेरी (पू.) मुंबई 400093	विशाल भारद्वाज
12	ओए लकी ! लकी ओए	हिन्दी	रॉनी स्कूवाला, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, 1181-82, सॉलीटेयर, कॉर्पोरेट पार्क, चकाला, अंधेरी (पू.) मुंबई 400093	दिबाकर बैनर्जी
13	दी व्हाइट एलीफैंट	हिन्दी	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नेहरू सेंटर, छठी मंजिल, डिककवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डा. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई 400018	एजाज़ खान
14	बेली मत्तु होला	कन्नड़	नायडू स्टूडियो, न. 132, अपस्टेयर्स, आर. वी. रोड, वी. वी. पुरम, बंगलोर 560004	पी. आर. रामदास नायडू
15	इज्जोडु	कन्नड़	महेश रामनाथन, रिलायंस बिग पिक्चर्स, छठी मंजिल, 49/50, मारुति चैम्बर्स, वीरा देसाई एक्सटेंशन रोड, ऑफ लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400053	एम. एस. सत्यू
16	शंकरा पुण्यकोटि	कन्नड़	लोटस, सिनेमाज, 34, प्रथम तल, नावल्ली मेंसन, द्वितीय कॉस, चौथा ब्लॉक, कुमारा पार्क वैस्ट, बंगलोर 560020	जी. मूर्ती
17	पलतडचो मनीस	कोंकणी	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नेहरू सेंटर, छठी मंजिल, डिककवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डा. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई 400018	लक्ष्मीकांत शेतगांवकर
18	केशु	मलयालम	बाल चित्र समिति, भारत, फिल्म प्रभाग परिसर, 24 जी. देशमुख मार्ग, मुंबई 400026	शिवन

19	कुट्टी श्रृंक	मलयालम	महेश रामनाथन, रिलायंस बिग पिकचर्स, छठी मंजिल, 49/50, मारुति चैम्बर्स, वीरा देसाई एक्सटेंशन रोड, ऑफ लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400053	शाजी एन. करुन
20	एक कप च्या	मराठी	के. एस. वाणी मैमोरियल ट्रस्ट एवं स्क्रिप्टोफेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन, कमलिनी कृति भवन, 14, गणेश नगर, 19/1-2, धयारी रोड, पुणे 411037	सुमित्रा भावे एवं सुनील सुखधकर
21	ग्रात्रीचा पाउस	मराठी	प्रशान्त पेठे, पैसीफिक एंटरटेनमेंट, ए 1-30, सूर्यप्रभा गार्डन्स, बिब्वेवाडी कोडवा रोड, बिब्वेवाडी, पुणे, 411037	सतीश मनवर
22	हरीशचन्द्राची फैक्टरी	मराठी	परेश मोकाशी, 201, राजगुरु अपार्टमेंट्स, बाबुराव पारुलेकर रोड, दादर (प.), मुंबई 400028	परेश मोकाशी
23	हाट द वीकली बाजार	राजस्थानी	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नेहरू सेंटर, छठी मंजिल, डिव्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डा. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई 400018	सीमा कपूर
24	अच्चांमुंडू अच्चांमुंडू	तमिल	अनंत पी. गोविन्दन, 98 ए, तीसरा तल, डा. राधाकृष्णन रोड, चेन्नई 600004	अरुण वैद्यनाथन
25	पसंग	तमिल	एम. शशीकुमार, 29/52, वेलायुथम, कॉलोनी, द्वितीय स्ट्रीट, चेन्नई 600093	पाण्डी राज
26	गगगरा	तुलु	दुर्गानन्द द्वारा शिवध्वज शेड्डी, 117, आशीर्वाद, न. एस 3, उन्नीसवां कॉस, आठवां मेन, बी डी ए परिसर रोड, विजयनगर, बंगलोर 560040	शिवध्वज शेड्डी

## गैर फीचर फिल्में

क्रम सं०	फिल्म का नाम	भाषा	निर्माता का नाम एवं पता	निर्देशक का नाम
1	डॉट इन फोर मोशन	अंग्रेजी	अमलन दत्ता, अनिमाजीनियर, 3/3, गिरीश घोष स्ट्रीट, कोलकाता 700108	अनिर्बन दत्ता
2	बिलाल	बांगला, हिन्दी	सौरव सारंगी, अभिषेक, द्वितीय तल, 8/1 निवेदिता सरनी गर्फा, कोलकाता 700078	सौरव सारंगी
3	एकटी काकतालिया गौल्पो	बांगला	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, लॉ कॉलेज रोड, पुणे 411004	तथागत सिंघा
4	आई एम द वेरी ब्यूटीफुल	बांगला	संघमित्रा करमाकर, फ्लैट न. 21, ब्लॉक के/231/14, बी. पी. टाउनशिप, कोलकाता 700094	श्यामल कुमार करमाकर

5	दी फर्स्ट लीप	अंग्रेजी	हाउबम पबन कुमार, उनीपोक हाउबम दिवान लेकई, इफाल 795001	हाउबम पबन कुमार
6	दी लेटेन्ट सिटी	अंग्रेजी	कृष्णेन्दु बोस, बी-91, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110024	कृष्णेन्दु बोस
7	दी प्रिन्स एंड दी काउन ऑफ स्टोन्स	अंग्रेजी	बाल चित्र समिति, भारत, फिल्म प्रभाग परिसर, 24 जी. देशमुख मार्ग, मुंबई 400026	गौतम बेनेगल
8	वॉट इफ	अंग्रेजी	ट्रेन्डज एंड फिल्म्स प्रा. लि., तीसरा कॉस, ऑफ सरजापुरा आउटर रिंग रोड कादाबिसाना हल्ली, बंगलोर 87	वी. के. प्रकाश
9	बूंद	हिन्दी	कार्विंग ड्रीम्स एन्टरटेनमेंट 305, ऑबेरोय चैम्बर्स II, बी विंग, ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प.), मुंबई 400053	अभिषेक पाठक
10	चिलिका बैंक \$	हिन्दी	पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट, ए-86, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली 110013	आकांक्षा जोशी
11	क्या मैं काफिर हूँ	हिन्दी	संधीर फलोरा एंड मंधीर फलोरा, सिनेकृति एन्टरटेनमेंट, के 203, एकता भूमि गार्डन्स, राजेन्द्र बोरीवाली (पू.), मुंबई 66	संधीर फलोरा
12	सूपरमेन्न ऑफ मालेगांव	हिन्दी, उर्दू	फैजा अहमद खान, 301, सुयोग दर्शन, सेवन बंगलोज, अंधेरी (प.), मुंबई 400058	फैज अहमद खान
13	स्वयंभू सेन फोरसीज हिज एंड	हिन्दी, मलयालम, अंग्रेजी	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, लॉ कॉलेज रोड, पुणे 411004	देबाशीष मेधेकर
14	व्हेन दिस मैं डाइज़	हिन्दी, अंग्रेजी	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, लॉ कॉलेज रोड, पुणे 411004	अरुण सुकुमार
15	केलकुननुन्डो	मलयालम	राजीव रवि रंजिनी, काडावन्तरा, कलूर रोड, एर्नाकुलम, कोचीन 682017	गीतू मोहन दास
16	इलिशा अमागी महौ	मणिपुरी	निंगथौजा लांचा कीसमथौंग, लाइजम लीराक, इफाल 795001	निंगथौजा लांचा
17	विट्ठल	मराठी	मनु पुष्पेन्द्रन, 13/1101, ज्योति बिल्डिंग, शिवराम सॉसाइटी, डी. डी. रोड, मुलुंड (प.), मुंबई 400080	वीनू चोलीपराम्बिल

18	नानुम ओरु पेन्न	तमिल, अंग्रेजी	एल. वी. प्रसाद फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी, 28, अरुणाचलम रोड, सालीग्रामम, चेन्नई 600093	वी. रामानाथन
----	-----------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

वी. बी. प्यारेलाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2009

No. 303/53/2009-F(F).—The Ministry of Information and Broadcasting, Government of India hereby notify that in accordance with the Indian Panorama Regulations Published *vide* the Ministry of Information and Broadcasting's Public Notice No. 303/64/2001-F(F) dated 4-6-2002 in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary as amended from time to time, the Central Government on the Recommendations made by respective Juries have decided to Include 26 Feature and 18 Non-Feature Films listed below in the Indian Panorama, 2009 :—

## FEATURE FILMS

S.N o.	NAME OF THE FILM	Language	Producer's Name And Address	Name Of The Director
1.	AAINAATE	Bengali	Narendra S. Surana c/o Jaqua Industries & sales Co. Pvt Ltd., 114/5, Hazra Road, Kolkata 700026	Dulal Dey
2.	ANGSHUMANER CHHOBI	Bengali	T. Sarkar productions, room No 410, 79, Lenin Sarani, Kolkata 700013	Atanu Ghosh
3.	ANTAHEEN	Bengali	Screenplay Films Pvt Ltd 162/A/ 93 Lake gardens, Kolkata 700045	Aniruddha Roy Chowdhury
4.	DWANDO	Bengali	Suman Ghosh Productions c/o P. Mukherjee & Co., Room No 5, First Floor, 8/2, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata 700001	Suman Ghosh
5	SHOB CHARITRO KALPONIK	Bengali	Mahesh Ramanathan Reliance Big Pictures 6 <sup>th</sup> Floor, 49/50, Maruti Chambers, Veera Desai Extension Road, Off Link Road Andheri West, Mumbai 400053	Rituperno Ghosh
6	JANALA	Bengali	Mahesh Ramanathan 6 <sup>th</sup> floor, 49/50, Maruti Chambers, Veera Desai Extn Road, Off Link Road Andheri West, Mumbai 400053	Buddhadeb Dasgupta

4231 GT/09-2

7.	LAND GOLD WOMEN	English & Urdu	Southern Entertainment 905 A RNA Heights, JV Link Road, Andheri (E), Mumbai 400093	Avantika Hari
8.	FOR REAL	English	Sona Jain 6 B/6 Siri Fort INSAT Area, August Kranti Marg, New Delhi 110049	Sona Jain
9	DEV. D	Hindi	Ronnie Screwvala UTV Motion Pictures 1181-82, Solitaire Corporate Park, Chakala, Andheri (E), Mumbai 400093	Anurag Kashyap
10.	FIRAAQ	Hindi	Percept Picture Company, P22, Raghuvanshi Estate, 11/12, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013	Nandita Das
11	KAMINEY	Hindi	Ronnie Screwvala UTV Motion Pictures 1181-82, Solitaire Corporate Park, Chakala, Andheri (E), Mumbai 400093	Vishal Bhardwaj
12.	OYE LUCKY-LUCKY OYE	Hindi	Ronnie Screwvala UTV Motion Pictures 1181-82, Solitaire Corporate Park, Chakala, Andheri (E), Mumbai 400093	Dibakar Banerjee
13.	THE WHITE ELEPHANT	Hindi	National Film Development Corporation Nehru Centre, 6 <sup>th</sup> Floor, Discovery of India Building, Dr A.B. Road, Worli, Mumbai 400018	Aijaz Khan
14.	BELI MATTHU HOLA	Kannada	Naidu Studio productions, No 132, Upstairs, R.V. Road, V.V. Puram, Bangalore 560004.	P.R. Ramadasa Naidu
15.	IJJODU	Kannada	Mahesh Ramanathan Reliance Big Pictures 6 <sup>th</sup> floor, 49/50, Maruti Chambers, Veera Desai Extn Road, Off Link Road, Andheri West, Mumbai 400053	M.S. Sathyu
16.	SHANKARA PUNYAKOTI	Kannada	Lotus Cinemas, 34, 1st Floor, Novelty mansion, 2 <sup>nd</sup> cross, 4 <sup>th</sup> Block, Kumara Park West, Bangalore 560020	G. Murthy

17.	PALTADACHD MUNIS	Konkani	National Film Development Corporation Nehru Centre, 6 <sup>th</sup> Floor, Discovery of India Building, Dr A.B. Road, Worli, Mumbai 400018	Laxmikant Shetgaonkar
18	KESHU	Malayalam	Children's Film Society, India Films Division Complex 24 G. Deshmukh Marg Mumbai 400026	Sivan
19	KUTTY SRANK	Malayalam	Maresh Ramanathan Reliance Big Pictures 6 <sup>th</sup> floor, 49/50, Maruti Chambers, Veera Desai Extn Road, Off Link Road, Andheri West, Mumbai 400053	Shaji N. Karun
20.	EK CUP CHYA	Marathi	Y. N. Oak K.S. Wani Memorial Trust & Schizophrenia Awareness Association Kamalini Kruti Bhavan, 14, Ganesh Nagar, 19/1-2, Dhayari Road, Pune 411041	Sumitra Bhawe & Sunil Sukhtankar
21.	GABHRUCHA PAUS	Marathi	Prashant Pethe, Pacific Entertainment, A 1-30, Suryaprabha Gardens, Bibwewadi Kondhwa Road, Bibwewadi, Pune 411037	Satish Manwar
22	HARISHCHANDRACHI FACTORY	Marathi	Pareesh Mokashi, 201, Rajguru Apts, Baburao Parulekar Road, Dadar (West), Mumbai 400028	Pareesh Mokashi
23	HAAT THE WEEKLY BAZAAR	Rajasthani	National Film Development Corporation, Nehru Centre, 6 <sup>th</sup> Floor, Discovery of India Building, Dr A.B. Road, Worli, Mumbai 400018	Seema Kapoor
24	ACHCHAMUNDU ACHCHAMUNDU	Tamil	Ananth P. Govind 98 A, 3 <sup>rd</sup> Floor, Dr Radhakrishnan Road, Chennai 600004	Arun Vaidyanathan
25	PASANGA	Tamil	M. Sasikumar 29/52, Velayutham Colony, 2 <sup>nd</sup> Street, Chennai 600093	Pandi Raj
26	GAGGARA	Tulu	Surganand c/o Shivadhwaj Shetty, 117, Aashirwad, No S 3, 19 <sup>th</sup> Cross, 8 Main, BDA Complex Road, Vijayanagar, Bangalore 560040	Shivadhwaj Shetty

4231 GF/69-3

**NON – FEATURE FILMS**

<b>S.N o.</b>	<b>NAME OF THE FILM</b>	<b>Language</b>	<b>Producer's Name And Address</b>	<b>Name Of The Director</b>
1	IN FOR MOTION	English	Amlan Datta, ANIMAGINEER 3/3, Girish Ghosh Street, Kolkata 700108	Anirban Datta
2	BILAL	Bengali	Sourav Sarangi, Abhishek, 2 <sup>nd</sup> Floor, 8/1 Nibedita Sarani Garfa, Kolkata 700078	Sourav Sarangi
3	EKTI KAKTALIYA GOLPO	Bengali	Film and Television Institute of India, Law College Road, Pune 411004	Tathagata Singha
4	I'M VERY BEAUTIFUL	Bengali	Shyamal Kumar Karmakar Flat 21, Block K/231/14, B.P. Township, Kolkata 700094	Shyamal Kumar Karmakar
5	THE FIRST LEAP	English	Haobam Pawan Kumar, Uripok Haobam Dewan Lekai, Imphal 795001	Haobam Pawan Kumar
6	THE LATENT CITY	English	Krishnendu Bose B-91, Defence Colony New Delhi 110024	Krishnendu Bose
7	THE PRINCE AND THE CROWN OF STONES	English	Children's Film Society, India Films Division Complex, 24 G. Deshmukh Marg, Mumbai 400026.	Gautam Benegal
8	WHAT IF	English	Ternds Ad Films PvtLtd, 3 <sup>rd</sup> Cross, Off. Sarjapura Outer Ring Road, Kadabisana Halli, Bangalore 560087	V.K. Prakash
9	BOOND	Hindi	Carving Dreams Entertainment 305, Oberoi Chambers II, B Wing, off New link Road, Andheri (W), Mumbai 53	Abhishek Pathak
10	CHILIKA BANK\$	Hindi	Public Service Broadcasting Trust A-86, Nizamuddin East, New Delhi 110013	Akanksha Joshi
11	KYA MAIN QAFIR HOON	Hindi	Sandhir Flora & Mandhir Flora Cinekruti Entertainment, K 203, Ekta Bhoomi Gardens, Rajendra Borivali (E), Mumbai 400066	Sandhir Flora
12	SUPERMAN OF MALEGAON	Hindi	Faiza Ahmad Khan 301, Suyog Darshan, Seven Bungalows, Andheri (W), Mumbai 58	Faiza Ahmad Khan
13	SWAYMABHU SEN FORSEES HIS END	Hindi/ Malayalam/ English	Film and Television Institute of India, Law College Road, Pune 411004	Debashish Medhekar



14	WHEN THIS MAN DIES	Hindi/ English	Film and Television Institute of India, Law College Road, Pune 411004	Arun Sukumar
15	KELKKUNNUNDO	Malayalam	Rajeev Ravi Ranjini Kadavanthara, Kaloore Road, Ernakulam, Cochin 682017	Geetu Mohan Das
16	ILLISA ANAGI MAHAO	Manipuri	Ningthouja Lancha Keishamthong, Laisom Leirak, Imphal 795001	Ningthouja Lancha
17	VITTHAL	Marathi	Manu Pushpendran 13/1101, Jyothi Bld, Shivram Society, D D Road, Mulund (West), Mumbai 400080	Vinoo Choliparambil
18	NANUM ORU PENN	Tamil/ English	L.V. Prasad Film and Television Academy, 28, Arunachalam Road, Saligramam, Chennai 600093	V. Ramanathan

V. B. PYARELAL, Jt. Secy.

